

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन लगातार ऑटो इंश्योरेंस रेट्स पर फेयर डील के लिए हिमायत कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 फरवरी, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन लगातार, ओनटैरियो में ऑटो इंश्योरेंस रेट्स की समीक्षा और इनमें सुधार करने के लिए प्रोविंसियल सरकार को अपील कर रही है।

अप्रैल 2021 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने इस बारे में विवरण देते हुए, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि ब्रैम्पटन के निवासी किस प्रकार ओनटैरियो में सबसे अधिक ऑटो इंश्योरेंस रेट्स का भुगतान कर रहे हैं। साथ ही, काउंसिल ने अपने #FairDealForBrampton अभियान की शुरुआत की (launched its #FairDealForBrampton campaign)। अब तक, 19,000 से अधिक निवासियों ने, पटीशन पर हस्ताक्षर करके अभियान में हिस्सा लिया है।

पिछले महीने, *RATESDOTCA* ने अपने ऑटो इंश्योरमेंट (Auto Insuramap) के आधार पर, जो पोस्टल कोड्स के आधार पर प्रीमियमों की योजना के विवरण देता है, ओनटैरियो के शहरों के लिए कार इंश्योरेंस प्रीमियमों (car insurance premiums for Ontario cities) पर एक लेख प्रकाशित किया था। इस लेख में, बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस रेट्स तय करने में मुख्य कारकों के तौर पर, पोस्टल कोड्स या एरिया कोड्स का प्रयोग करने से रोकने के लिए, सिटी के **#FairDealForBrampton** अभियान का संदर्भ दिया गया है। ब्रैम्पटन में, 2021 में, रेट्स घटकर 26.8 प्रतिशत, या 2,698 डॉलर से घटकर 1,975 डॉलर हो गए हैं। ब्रैम्पटन, ओनटैरियो में सबसे महंगे शहर से, चौथा सबसे अधिक महंगा शहर बन गया।

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल अनुरोध करती है कि ओनटैरियो सरकार, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए जीवन को निष्पक्ष और अधिक किफायती बनाने के लिए, बिल 42, *ऑटोमोबाइल में पक्षपात का खात्मा एक्ट (Bill 42, Ending Discrimination in Automobile Insurance Act)* पेश करे।

सिटी के **#FairDealForBrampton** अभियान के बारे में अधिक जानकारी, www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca पर प्राप्त की जा सकती है।

हवाले

“चूंकि हमारे निवासी और ओनटैरियो के लोग लगातार, उन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी से पैदा हुई हैं, इसलिए सरकार के सभी महकमों के लिए हमारे प्रांत में, ऑटो इंश्योरेंस की उच्च कीमतों पर ध्यान देने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करना जरूरी है। जब से हमने हमारे **#FairDealForBrampton** अभियान की शुरुआत की है, 19,000 से अधिक निवासी, इंश्योरेंस

इंडस्ट्री में बदलाव की जरूरत के लिए हमसे जुड़े हैं। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल और निवासी, बिल 42, *ऑटोमोबाइल में पक्षपात का खात्मा एक्ट* को पेश करने और इंश्योरेंस रेट्स में पोस्टल कोड पक्षपात खत्म करने की जरूरत के लिए, एकजुट हैं।"

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हालांकि यह बहुत अच्छी खबर है कि पिछले वर्ष ब्रैम्पटन में, ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो गए हैं, फिर भी हमारे निवासी लगातार, केवल अपने पोस्टल कोड्स के कारण प्रांत में सबसे अधिक उच्च रेट्स का भुगतान कर रहे हैं। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल दुबारा, ओनटैरियो में ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रेट्स की समीक्षा करने और इनमें सुधार करने के लिए, प्रोविंसियल सरकार से अनुरोध करती है, ताकि हम #FairDealForBrampton प्राप्त कर पाएं और हमारे शहर के ड्राइवरों के लिए जीवन, अधिक किफायती हो।”

- गुरप्रीत धिल्लों (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca